



icmr | **RMRC SVP**
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
REGIONAL MEDICAL RESEARCH CENTRE, SRI VIJAYA PURAM

आई सी एम आर – क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान
अनुसंधान केन्द्र, श्री विजयपुरम
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - Regional Medical Research Centre,
Sri Vijaya Puram

Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

Ref.No.1-23/Pur/Web/ICMR-RMRC SVP/6980

Date: 28-April-2026

खरीद सूचना/PROCUREMENT NOTICE

ICMR-रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, श्री विजया पुरम, प्रतिष्ठित, योग्य और अधिकृत सप्लायर/विक्रेताओं से उन वस्तुओं की सप्लाई और डिलीवरी के लिए कोटेशन आमंत्रित करता है, जो GeM प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं हैं, सेंटर के कॉम्प्लेक्स, डॉलीगंज, श्री विजया पुरम में, जैसा कि नीचे बताया गया है:

ICMR-Regional Medical Research Centre, Sri Vijaya Puram invites quotations from reputed, eligible, and authorized suppliers/vendors for supply and delivery of the items, **which are not available in GeM platform**, at the centre's complex at Dollygunj, Sri Vijaya Puram as detailed below:

I. Reference No. – 264179

Serial No.	Name of the items	Quantity
1.	Dipper or Laddle	4 units
2.	Aspirator (sucking tube)	6 Units
3.	Mosquito Rearing Cages	5 Units
4.	Culture tray	10 Units
5.	Entomological Forceps	04 units
6.	Entomological dissection box	1 Box
7.	Water Filter/Strainer	04 units
8.	Insect Dissection Needle	2 units
9.	Enamel Bowel	04 units

पोस्ट बॉक्स नं. 13, डॉलीगंज, श्री विजयपुरम-744 103
Post Bag No. 13, Dollygunj, Sri Vijaya Puram - 744 103
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, भारत
Andaman & Nicobar Islands, India

Tel: +91-3192-251158 | 251043
Fax: +91-3192-251163 (Director's Office)
email: rrmrcicmr-pb@gov.in
directorrrmrc@gmail.com
acormrcpb.org@gmail.com
aormrcpb@gmail.com
www.rmrc.res.in

Handwritten signature and date: 28/04/2026

Specifications for items in Reference No. – 264179

Dipper or Ladle:

Fixed-length handle: 60–90 cm (default: 60 cm), Three-segment telescopic aluminium handle, Length option 1: Maximum of 200 cm., Collection bowl should be Enamel material 350 ml, Three-segment telescopic aluminium handle

Aspirator (sucking tube)

L30 x D12mm Acrylic Straight for insectary and field collection of mosquitoes

Mosquito Rearing Cages

W24.5 x D24.5 x H24.5 cm, Netting Nylon Type, Dimensions: 32.5 x 32.5 x 32.5 cm, Lightweight aluminium frame, Fine nylon mesh for ventilation, Easy assembly with plastic connectors, Front sleeve opening for easy access, Solid floor for added stability

Culture tray

Dimensions: L37.5 x W30 x H7.5 cm, Net Weight: 460 grams, Main Material: Plastic-Polypropylene, Mesh Size: 26 x 24 | 1, 220-micron aperture

Entomological Forceps

Feather forceps, L12 cm, 3 grams 9.

Insect Dissection Needle - Insect Dissection Needle LI-IR-55 for Entomological work, The sharp tips with varying lengths (5cm or 2.5cm)

Enamel Bowl

16cm (6 inches) in diameter, ideal for medical, laboratory, and clinical use

Interested firms/vendors who can supply the above-mentioned item(s) are requested to submit their quotation (including GST, delivery charges, and warranty details, if applicable) through email.

II. Reference No. – 264186

Sl. No.	Name of the Item	Quantity
1	Borosilicate (Glass Dropper with Rubber Bulb) – 10 mL	06 Nos

Handwritten signature

Handwritten signature

III. Reference No. – 266594**Name of the Item:** 1. Dialysis Membrane 10 metre - 01 Quantity**Specifications:** Dialysis membrane, 10 MT, Av. Flat width: 22.54 mm Av. Diameter: 14.3 mm Capacity
Approx: 1.61 ml/cm 1**IV. Reference No. - 271867**

S. No.	Name of the Item	Quantity
1	Samples container, sterile, polypropylene, spoon attached to lid, individually wrapped	500
2	Stool sample collection paper kit, for the same collection of faecal samples from patients, sterile, individually packed	250
3	Labels (Cryotags), 38 mm, ability to withstand ultra-low temperature, 1000 Nos/ Per roll	3 rolls

V. Reference No. – 268835

Sl. No.	Name of the Item		Quantity
1	Dialysis tubing cellulose membrane	Flat width 33 mm, length 100 ft roll, Cellulose membrane	1 roll
2.	Centrifuge adapter	Adapter to use 15/10ml tubes in 50 ml rotor, case of 6 pc	6 pc
3.	Multi-well plate (U bottom, sterile)	96 wells, sterile, U-bottom, Tissue culture plate, material PVC, with lid, autoclavable, non-pyrogenic, holds volume 250-300µL	50 pc

VI. Reference No. – 266021

क्रम सां/ S.No.	कतया/ सतमतन कत पूराब्योरत Name of item(s)/work with full specification	सां/Qty
--------------------	---	---------

1	Dengue Serotyping-Chikungunya-Zika Multiplex Probe PCR Kit (100R)	1 No
2	Viral RNA Kit for RNA Extraction (250R)	1 No

Specifications -266021

Sl. No	Name of Item	Specification
1.	Dengue Serotyping-Chikungunya-Zika Multiplex Probe PCR Kit (100R)	<ul style="list-style-type: none"> • Detection: Simultaneous serotyping of Dengue viruses and detection of Chikungunya and Zika in a single assay. • Time consumption: Results within 90 minutes. • Assay: One-step assay i.e. reverse transcription and amplification are performed in same tube. • Reaction: Two Tube reaction to detect DENV1, DENV2, DENV3, DENV4, CHIKV and ZIKA. • Product contents: Should include all reagents & controls for validity of the test. • Limit of Detection: 2.87 copies/μL for DENV-1, < 1 copy/μL for DENV-2, 1.87 copies/μL for DENV-3, 1.41 copies/μL for DENV-4, < 1 copy/μL for CHIKV and < 1 copy/μL for ZIKV. • Compatibility: With 4-channel and 5-channel qPCR cyclers.
2.	Viral RNA Kits for RNA Extraction (250R)	<ul style="list-style-type: none"> • Rapid isolation of high-quality, ready-to-use RNA. No organic extraction or alcohol precipitation should be used. • Recovery: > 90% (Highly efficient) of Viral RNA at any titre. • Sample type: Cell free supernatant. • Processing: Manual. • Elution volume: 80-100 μL. • Format: Spin columns. • Sample amount: 140 μL. • Time per run or prep: 20-40 minutes. • Removal of complete contaminants and inhibitors. • Carrier RNA based extraction for enhanced binding of viral nucleic acids.

Interested firms/vendors who can supply the above-mentioned item(s) are requested to submit their quotation (including GST, delivery charges, and warranty details, if applicable) through email.

Quotation should be sent to : procurement2rmrcsvp@gmail.com

WJH 4/10/2026

Due date and time for submission of quotation: 05 May 2026 by 3.30 pm

नियम और शर्तें:

1. कोटेशन फर्म के लेटरहेड पर डायरेक्टर ICMR-RMRC श्री विजया पुरम डॉलीगंज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत पिनकोड 744103 के नाम से जमा किया जाना चाहिए।
2. कोटेशन ऊपर बताए गए रेफरेंस और सीरियल डिटेल के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए।
3. GST नंबर और कोटेशन की वैलिडिटी साफ तौर पर बताई जानी चाहिए।
4. डिलीवरी की अवधि कोटेशन में बताई जानी चाहिए।
5. संस्थान बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
6. तय तारीख और समय के बाद मिले कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. कोटेशन और सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट/सर्टिफिकेट सिर्फ पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF फॉर्मेट में ही सबमिट किए जाएंगे, दूसरे फ़ाइल फ़ॉर्मेट पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. PDF फ़ाइल खोलने का पासवर्ड कृपया 05 मई 2026, शाम 3.30 बजे के बाद अलग से ईमेल द्वारा भेजें।
7. दरें ICMR-RMRC SVP पर सभी टैक्स और डिलीवरी चार्ज सहित होनी चाहिए।

Terms & Conditions:

1. Quotation should be submitted on the firm's letterhead in the name of Director ICMR-RMRC Sri Vijaya Puram, Dollygunj, Andaman & Nicobar Islands India, Pincod:744103
2. Quotation must be prepared as per the Reference and serial detailed above.
3. GST number and validity of quotation must be clearly mentioned.
4. Delivery period should be mentioned in the quotation
5. The institute reserves the right to accept or reject any or all quotations without assigning any reason.
6. Quotations received after the Due date and time will not be considered.
7. The quotation along with all supporting documents/certificates shall only be submitted **in Password protected PDF format**, other file formats will not be considered.
8. The password for opening the PDF file(s) may kindly be sent by email separately after **05 May 2026, 3.30 pm**
9. Rates must be inclusive of all taxes and delivery charges at ICMR-RMRC SVP.



प्रशासनिक अधिकारी
Administrative Officer
कृते निदेशक/for Director